

## औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोघला- दीव के ग्रुप इंस्ट्रक्टर श्री इब्राहिम आदम हुए अधिवर्षिता पर हुए सेवानिवृत्त

दीव (दिनांक 31/08/2018) :- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोघला-दीव में ग्रुप इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत श्री इब्राहिम आदम अपनी 60 साल की अधिवर्षिता पूरी कर आज सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । इस अवसर पर आईटीआई घोघला में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें एसडीपीओ एवं इस संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष श्री विपुल अनेकांत एवं संस्थान के ग्रुप अनुदेशक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष श्री विपुल अनेकांत ने सर्वप्रथम श्री इब्राहिम आदम को साल ओढ़ाकर एवं नारियल देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर श्री विपुल अनेकांत ने उनकी सेवाओं को याद किया और सेवानिवृत्ति के बाद की उनकी लंबी और सुखमय जीवन की कामना की। इस कार्यक्रम में उनकी बेदाग छवि तथा कार्य के प्रति निष्ठा को याद किया गया और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही गई। सभी इंस्ट्रक्टरों ने इस अवसर पर अपने-अपने विचार व्यक्त की और उनकी कार्य शैली को सराहा।

अपने विदाई अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए श्री इब्राहिम आदम बहुत भावुक हो गये और अपनी दीव में की गई सरकारी सेवा को याद किया। संस्थान के इंस्ट्रक्टर और कर्मचारियों से सेवा के दौरान मिले सहयोग के लिए सबका धन्यवाद किया। विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्यालयाध्यक्ष एवं सभी कर्मचारियों का आभार माना। उनकी विदाई समारोह में संस्थान के कर्मचारी भी भावुक हो गये। सभी ने यह आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई भी कार्य हो तो हो निःसंदेह विना झिझक के संपर्क कर सकते हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री इब्राहिम आदम वर्ष 1981 में मैथ इंस्ट्रक्टर के रूप में गोवा में कार्यभार ग्रहण किया। गोवा के अलग होने के बाद से अब तक श्री इब्राहिम आईटीआई घोघला में अपनी सेवा प्रदान की। इस प्रकार उन्होंने पूरे 37 साल 02 महीने ओर 24 दिन सरकारी सेवा में रहे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

